



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 10, 2006/माघ 21, 1927

No. 134]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 10, 2006/MAGHA 21, 1927

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2006

सं० 44 (आर ई-2005)/2004-2009

का. आ. 205(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004 2009 के पैराग्राफ 2.1 के तहत विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना सं. 15, दिनांक 15-7-2005 के द्वारा अधिसूचित निर्यात और आयात मर्दों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-2009 की अनुसूची 2 के परिशिष्ट 3 के तहत श्रेणी 0 की प्रविष्टियों में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

(i) मौजूदा

0क विहित पदार्थ

टिप्पणी :—श्रेणी 0क की किसी भी रेडियोएक्टिव सामग्री पर इन नियमों के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत बने विकिरण संरक्षण नियम, 2004 के प्रावधान और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 के प्रावधान भी लागू होंगे।

संशोधन

0क विहित पदार्थ

टिप्पणी :—श्रेणी 0क की किसी भी रेडियोएक्टिव सामग्री पर इन नियमों के अतिरिक्त परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत बने परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के प्रावधान और परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा 16 के प्रावधान भी लागू होंगे।

(ii) 0क 313 की प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा :—

0क 314 *टाइटेनियम अयस्क और उसके सांद्रण (इल्मेनाइट, रूल्स और ल्यूकोक्सीन)

0क 315 *जिकॉनियम, इसकी मिश्रधातुएं और यौगिक तथा खनिज/सांद्रण जिनमें जिकॉन भी शामिल है।

टिप्पणी :—ये मर्दे (0क 314 और 0क 315) उस समय तक ही विहित पदार्थ रहेंगी जब तक कि दिनांक 6 अक्टूबर, 1998 के संकल्प सं० 8/1(1)/97-पीएसयू/1422 द्वारा अधिसूचित तटीय रेत खनिजों के दोहन की नीति, खान मंत्रालय द्वारा अपनाई/संशोधित/परिवर्तित नहीं की जाती, किन्तु यदि 01 जनवरी, 2007 तक ऐसा नहीं होता तो उसके बाद ये मर्दे विहित मर्दे नहीं रह जाएंगी।

2. श्रेणी 0 के तहत मर्दों के निर्यात पर प्रतिबंध परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा दिनांक 18 जनवरी, 2006 को जारी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।
3. यह लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/91/14/ए एम 06/पी सी-3]

के. टी. चाको, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2006

No. 44 (RE-05)/2004—2009

S.O. 205(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with paragraph 2.1 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby makes the following amendments against entries in Category 0 under Appendix 3 to Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import Items, 2004—2009 notified *vide* Notification No. 15 dated 15-7-2005 :—

(i) Existing

0A Prescribed Substances

Note : Any radioactive material in Category 0A shall additionally attract the provisions of Radiation Protection Rules, 2004 made under the Atomic Energy Act, 1962 and the provisions of Section 16 of the Atomic Energy Act, 1962.

Amended

0A Prescribed Substances

Note : Any radioactive material in Category 0A shall additionally attract the provisions of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 made under the Atomic Energy Act, 1962 and the provisions of Section 16 of the Atomic Energy Act, 1962.

(ii) After entries 0A313, the following are added :—

0A314 *Titanium ores and concentrates (Ilmenite, Rutile and leucoxene)

0A315 *Zirconium, its alloys and compounds and minerals/concentrates including zircon.

***Note :** These items (0A314 and 0A315) shall remain prescribed substances only till such time as the Policy on Exploitation of Beach Sand Minerals notified *vide* Resolution under 8/1(1)/97-PSU/1422 dated 6th October, 1998 is adopted/revised/modified by the Ministry of Mines or till the 1st January, 2007, whichever occurs earlier and shall cease to be so thereafter.

2. The restrictions on export of items under Category 0 came into effect from the date of issue of Notification dated 18th January, 2006 by Department of Atomic Energy.

3. This issues in public interest.

[F. No. 01/91/14/AM 06/PC-III]

K.T. CHACKO, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.